

# संपर्क

सहायता सेवा 1800 857 221

ई-मेल [btaa@shout.org.au](mailto:btaa@shout.org.au)

वेबसाइट [btaa.org.au](http://btaa.org.au)

डाक  
BTAA  
PO Box 717  
Mawson ACT 2607

FACEBOOK Brain Tumour Alliance Australia

LINKEDIN [btaa.org.au](http://btaa.org.au)

TWITTER @BrainTumourAA

# दान करें

[www.btaa.org.au/donations](http://www.btaa.org.au/donations) (तात्कालिक रसीद)

डॉयरेक्ट डेबिट BSB: 062 900  
एकाउंट (account): 1060 3153  
टैक्स रसीद प्राप्त करने के लिए  
[btaa@shout.org.au](mailto:btaa@shout.org.au) पर ई-मेल भेजें।

चेक  
BTAA  
PO Box 717  
MAWSON ACT 2617

# सदस्यता

सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन सबस्क्राइब करें या  
1800 857 221 पर फोन करें।

## Brain Tumour Alliance Australia

एक स्वयंसेवी संगठन है जो ब्रेन  
ट्यूमर के रोगियों, उनके परिवारों और  
देखभालकर्ताओं की देखरेख करता है।

## हमारा लक्ष्य है:

सहायता

सूचना

संपर्क

प्रतिनिधित्व



[BTAA.org.au](http://BTAA.org.au)

सहायता सेवा 1800 857 221

“किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करें जिसे यह पता हो कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होते हुए जीवन बिताना कैसा होता है”

Brain Tumour Alliance Australia (ब्रेन ट्यूमर अलाइन्स ऑस्ट्रेलिया) आपका राष्ट्रीय सहायता और पक्ष-समर्थन संगठन है।

हम अपनी समर्थन सेवाओं और नेटवर्कों, अपने प्रकाशनों तथा बैठकों के माध्यम से रोगियों, परिवारों और देखभालकर्ताओं की मदद करते हैं, और हम आपकी चिंताओं व आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।

# BTAA के बारे में

Brain Tumour Alliance Australia (BTAA, ब्रेन ट्यूमर अलाइन्स ऑस्ट्रेलिया) एक गैर-लाभ संगठन है जिसका संचालन स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है।



हम अपनी सेवाओं, सूचना संसाधनों और परियोजनाओं के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों का समर्थन करते हैं।

ब्रेन ट्यूमर का रोग-निदान किए जाने से पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार तथा अन्य सहायता-संपर्कों के लिए बहुत गंभीर चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

इसके कारण अक्सर अभिभूत, परेशान और अकेले हो जाने की भावना महसूस होती है। BTAA आपकी और आपके परिवार की सहायता के लिए मौजूद है।

## निम्नलिखित सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए आज ही BTAA से संपर्क करें

- टेलीफोन से समर्थन
- निःशुल्क सूचना पैक, बाल-चिकित्सा और वयस्क
- हॉर्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक समाचार-पत्र
- ऑस्ट्रेलियाई ई-न्यूज़ अपडेट्स
- आपके निकट स्थित सहायता समूह के बारे में सूचना
- International Brain Tumour Alliance (IBTA, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन ट्यूमर अलाइन्स) वार्षिक मैगज़ीन की प्रति और उनके नियमित ई-न्यूज़ अपडेट्स

# हम क्या करते हैं

## सहायता

हम रोगियों, देखभालकर्ताओं और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करते हैं। 1800 857 221 (निःशुल्क फोन) सेवा सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध है।

## सूचना

हम कई अलग-अलग प्रकार के फॉर्मेट में विश्वसनीय सूचना तैयार करते हैं और इसका वितरण करते हैं।

यह सूचना देखभाल और उपचार से संबंधित निर्णयों में मदद कर सकती है।

## संपर्क

हम ब्रेन ट्यूमर समुदाय में लोगों और संस्थाओं को एक-दूसरे के साथ जोड़ते हैं, जिससे रोगी के सहायता समूह गठबंधन प्रबल होते हैं।

यह सहयोग अलग-अलग स्वास्थ्य उपभोक्ता समूहों और ब्रेन ट्यूमर समुदाय में सुसंगत संदेश भेजने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

## प्रतिनिधित्व

हम ब्रेन ट्यूमर के रोगियों, उनके परिवारों और देखभालकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा उनकी ओर से पक्ष-समर्थन करते हैं।

हम स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कई संस्थाओं के साथ अपनी सहभागिता के माध्यम से ऐसा करते हैं।

# BTAA का समर्थन करें

BTAA नए सदस्यों को प्रोत्साहन देता है और उनका स्वागत करता है।

कृपया इसमें भाग लेने के बारे में विचार करें, क्योंकि जागरुकता पैदा करने और निरंतर समर्थन एवं देखभाल प्रदान करने के लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है।

BTAA का समर्थन करने के कई तरीके हैं, जिनमें शामिल हैं:

- सदस्य बनना
- चंदा इकट्ठा करने के समारोह आयोजित करना
- सीधे अनुदान
- पुस्तिकाएँ और रिबन वितरित करके जागरुकता बढ़ाना
- Everyday Hero (हर रोज़ के नायक) के लिए BTAA का चयन करना
- 'Walk Around the World for Brain Tumours' ('ब्रेन ट्यूमर के लिए विश्व भर में पद यात्रा') में भाग लेना
- कार्यक्षेत्र में दान कार्यक्रम में योगदान देना
- अंतिम संस्कार या स्मारक दान

BTAA एक पंजीकृत चैरिटी है। \$2 से अधिक के सभी दान कर में कटौती के लिए योग्य हैं।

सहायता सेवा 1800 857 221

ई-मेल [bttaa@shout.org.au](mailto:bttaa@shout.org.au)